

1



महाराष्ट्र MAHARASHTRA

© 2016 ©

AD 975636

प्रतिज्ञापक कोणाकडे सादर	रस्ता	प्रतिज्ञापक कारण
दस्तावेज प्रकार	प्रमाणपत्र	दस्त नोंदणी करणाव आहेत का ? होय / नाही
नोंदणी होणार असल्यास मुख्य निदेशक कार्यालयाचे नांव-नाशिक		
मिळकतीचे वर्णन		
नोंदवलेल्या रकम		
मुद्रांक विकत घेणाऱ्याचे नांव व पत्ता	श्री. वि. विनांक ४१८१७	
दुसऱ्या पक्षकाराचे नांव		
हस्ते असल्यास, त्याचे नांव व पत्ता	श्री. वि. विनांक ४१८१७	
मुद्रांक शुल्क रकम रु.	५००/-	मु. वि. विनांक ४१८१७
उत्तम कथारु तेजाळे, मु. वि. ६/९४		मु. वि. विनांक ४१८१७
अबोली प्रेरित सेंटर, प्रेस्टीज पॉइन्ट, ना. रोड		मु. वि. विनांक ४१८१७

TREASURY OFFICE KASER

3 AUG 2017

STPHC AIO



FORM 'B'

Affidavit cum Declaration

This Document Noted &
Registered at Sr. No. 556/17.
& Contains 03 Pages
on Dated: 4/8/2017

Affidavit cum Declaration of **KARDA CONSTRUCTIONS LIMITED**, a public limited company incorporated and registered under Companies Act, 1956 having registered office at 2nd Floor, Gulmohar Status Above Business Bank, Samarth Nagar Nashik - 422005 promoter of new project 'Hari Nisarg' situated at **S. No. 159/3+159/4+159/5A+7A, Plot No. 8, Shigwe, Nashik, Maharashtra, PIN-422401**, through it's duly authorized signatory, **Mr. Naresh Jagumal Karda, age: Adult, Occupation : Business, Address : 4, Karda Society, Anand Nagar, Nashik Road, Nashik 422101**, vide authorization dated 10th June, 2017.

I, Mr. Naresh Jagumal Karda, duly authorized by the promoter of the proposed project do hereby solemnly declare, undertake and state as under:




1. That promoter has a legal title Report to the land on which the development of the project is proposed to be carried out

AND

a legally valid authentication of title of such land along with an authenticated copy of the agreement between such owner and promoter for development of the real estate project is enclosed herewith.

2. That the project land is free from all encumbrances.
3. That the time period within which the project shall be completed by promoter from the date of registration of project is on or before **31st December, 2021**.
4. That seventy per cent of the amounts realised by promoter for the real estate project from the allottees, from time to time, shall be deposited in a separate account to be maintained in a scheduled bank to cover the cost of construction and the land cost and shall be used only for that purpose.
5. That the amounts from the separate account shall be withdrawn in accordance with Rule 5
6. That the promoter shall get the accounts audited within six months after the end of every financial year by a practicing Chartered Accountant, and shall produce a statement of accounts duly certified and signed by such practicing Chartered Accountant, and it shall be verified during the audit that the amounts collected for a particular project have been utilised for the project and the withdrawal has been in compliance with the proportion to the percentage of completion of the project.
7. That the promoter shall take all the pending approvals on time, from the competent authorities.
8. That the promoter shall inform the Authority regarding all the changes that have occurred in the information furnished under sub-section (2) of section 4 of the Act and under rule 3 of these rules, within seven days of the said changes occurring.
9. That the promoter has furnished such other documents as have been prescribed by the rules and regulations made under the Act.


10. That the promoter shall not discriminate against any allottee at the time of allotment of any apartment, plot or building, as the case may be.



Deponent

Verification

The contents of my above Affidavit cum Declaration are true and correct and nothing material has been concealed by me therefrom.

Verified by me at on this 4th day of Aug 2017


Deponent



BEFORE ME

SAHEBRAO P. BORADE
Advocate & Notary, Govt. of India
Off: 13, Ishw. Bldg. & opposite
Regimental Plaza, New Road

